

## **पुस्तकें चंद, मेरी पसंद - अरविन्द गुप्ता**

### **1 तोत्तोचान - तेत्सुको कुरोयांगी**

(मूल्य रुपए 45, नेशनल बुक ट्रस्ट, ए - 5, ग्रीन पार्क, नई दिल्ली 110016)

एक मुक्त जापानी स्कूल का अनूठा वर्णन। शिक्षा पर दुनिया में सबसे अधिक बिकने वाली किताब। केवल जापान में इस पुस्तक की 70 लाख से अधिक प्रतियाँ बिकी हैं। नेशनल बुक ट्रस्ट ने इसे 11 भारतीय भाषाओं में बहुत बाजिब कीमत पर छापकर बेहद पुण्य का काम किया है। जो भी इस पुस्तक को पढ़ता है - वो धन्य हो जाता है और अन्य लोगों को इसे पढ़वाता है। इसे पढ़ना अनिवार्य है। विश्व की एक महान अमर कृति।

### **2 दिवास्वप्न - गिजुभाई बधेका**

(मूल्य रुपए 24, नेशनल बुक ट्रस्ट, ए - 5, ग्रीन पार्क, नई दिल्ली 110016)

शिक्षा पर अपने देश की सबसे मौलिक कृति। एक उत्साही शिक्षक किसी निर्जीव कक्षा में प्राण फूंकने के लिए क्या कर सकता है, यह पुस्तक उसका जीता-जागता उदाहरण है। इसे सभी शिक्षकों और पालकों को इस पुस्तक को पढ़ना अनिवार्य है। इस पुस्तक को अंग्रेजी समेत नेशनल बुक ट्रस्ट ने 12 अन्य भारतीय भाषाओं में छापा है। अगर आप इस पुस्तक को पढ़ना शुरू करेंगे तब आप इसे बिना खत्म किए रख नहीं पाएंगे। इस पुस्तक का जादू आप अपनी सारी जिंदगी भूल नहीं पायेंगे।

### **3 राज, समाज और शिक्षा - कृष्ण कुमार**

(मूल्य 45 रुपए, राजकमल प्रकाशन, दरियागंज, नई दिल्ली 110002)

भारतीय शिक्षा का एक बेबाक और सटीक विश्लेषण। बहुत कम शिक्षाविदों ने भारतीय स्कूलों की जमीनी हालत को इतनी पैनी नजर से देखा है। हर शिक्षक के लिए अनिवार्य।

### **4 ब्लैकबोर्ड की किताब - ऐलीनर वॉट्स**

(मूल्य 90 रुपए - ओरियन्ट लौंगमैन, एकलव्य ई - 453, अरेरा कालोनी, भोपाल 462016 से उपलब्ध)

अगर कोई सर्वउपलब्ध शैक्षणिक साधन है तो वो है ब्लैकबोर्ड। परंतु कितने शिक्षक उसका समुचित उपयोग जानते हैं? इस सुंदर पुस्तक में ब्लैकबोर्ड की असंख्यों संभावनाएं सुझाई गई हैं। बच्चे हमेशा चित्रों और बिम्बों में सोचते हैं - शब्दों में नहीं। यह पुस्तक हर जिंदादिल प्राथमिक शिक्षक का मनोबल बढ़ाईगी, और केवल ब्लैकबोर्ड से अनेकों नए आयाम खोलेगी।

### **5 बच्चे असफल कैसे होते हैं - जॉन होल्ट**

(मूल्य 75 रुपए, प्रकाशक एकलव्य ई - 453, अरेरा कालोनी, भोपाल 462016)

1962 में लिखी पुस्तक 'हाऊ चिल्ड्रन फेल' का सुंदर हिंदी रूपांतरण। 40 वर्ष पहले इस पुस्तक ने सारी दुनिया में एक खलबली मचाई थी। शिक्षकों, अभिभावकों के लिए बेहद जरूरी।

### **6 बच्चे की भाषा और अध्यापक - कृष्ण कुमार**

(मूल्य रुपए 30, नेशनल बुक ट्रस्ट, ए - 5, ग्रीन पार्क, नई दिल्ली 110016)

भाषा कैसे सीखी-सिखाई इस विषय पर दुनिया के महान शिक्षाविदों के विचारों का सरल भाषा में निचोड़। भाषा पर आधारित ढेरों सरल और रोचक गतिविधियाँ। यह पुस्तक अंग्रेजी और हिंदी में नेशनल बुक ट्रस्ट ने छापी है।

## **8 महके सारी गली-गली - संपादन निरंकार देव सेवक, कृष्ण कुमार**

(मूल्य 12 रुपए - नेशनल बुक ट्रस्ट, ए - 5, ग्रीन पार्क, नई दिल्ली 110016)

पिछले पचास बरसों में लिखे महत्वपूर्ण हिंदी बालगीतों का एक ऐतिहासिक संग्रह। यह ऐसे सदा बहार और चुनिंदा गीत हैं जो सदा अमर रहेंगे। जगदीश जोशी ने कविताओं को अपने सुंदर चित्रों से सजाया है।

## **9 समझ के लिए तैयारी - कीथ वॉरेन**

(मूल्य 16 रुपए - नेशनल बुक ट्रस्ट, ए - 5, ग्रीन पार्क, नई दिल्ली 110016)

पत्थरों, पत्तों, तिनकों, बीजों, दानों एवं अन्य साधारण चीजों से आसपास की दुनिया के क्रम और नियम खोजने में बच्चों की मदद। प्राथमिक विज्ञान के लिए एक निराली पुस्तक।

## **10 सुंदर सलोने, भारतीय खिलौने - सुदर्शन खन्ना**

(मूल्य 35 रुपए - नेशनल बुक ट्रस्ट, ए - 5, ग्रीन पार्क, नई दिल्ली 110016)

परंपरागत भारतीय खिलौनों का बेमिसाल खजाना। अपने देश के कोने-कोने के, अलग-अलग क्षेत्रों के, गांव-गांव के 100 अनूठे खिलौनों का ऐतिहासिक संग्रह। यह खिलौने बच्चे बिना पैसे-धेले के सदियों से बनाते आ रहे हैं और इनका आनंद ले रहे हैं। इस पुस्तक में खिलौनों को बनाने की विधि को चित्रों द्वारा समझाया गया है।

## **11 दुनिया सबकी - सफदर हाशमी**

(मूल्य 25 रुपए - सहमत, 8 विठ्ठल भाई पटेल हाउस, नई दिल्ली 110001)

बाल-गीतों का एक निराला संग्रह। इसमें संकलित 'किताबें' और 'आजादी' कवितायें तो एकदम अनूठी हैं।

## **12 नाटक की दुनिया - सफदर हाशमी**

(मूल्य 25 रुपए - सहमत, 8 विठ्ठल भाई पटेल हाउस, नई दिल्ली 110001)

सफदर हाशमी द्वारा रचे बच्चे के पांच सुंदर नाटक।

## **13 रङ्गफ चाचा का गदहा**

(मूल्य 14 रुपए - प्रकाशन विभाग, पटियाला हाऊस नई दिल्ली)

चुनी हुई 21 हास्य-रस प्रधान कहानियों का संग्रह। इन्हें पढ़कर आप लोट-पोट हो जायेंगे।

## **14 श्राद्ध की दक्षिणा - वल्लभ डोभाल**

(मूल्य 14 रुपए - प्रकाशन विभाग, पटियाला हाऊस नई दिल्ली)

छोटे बच्चों के लिए सुरुचिपूर्ण हास्य-विनोद की 23 कहानियां।

## **15 बतूता का जूता - सर्वेश्वर दयाल सक्सेना**

(मूल्य 15 रुपए - राधाकृष्ण प्रकाशन, नई दिल्ली)

जुबां पर रट जाने वाली कविताओं का सुंदर संकलन।

## **16 मंहू की टाई - सर्वेश्वर दयाल सक्सेना**

(मूल्य 15 रुपए - राधाकृष्ण प्रकाशन, नई दिल्ली)

सुंदर कविताओं का एक बेहद प्यारा संकलन।

## **17 - बहुरूप गांधी - अनु बद्योपाध्याय**

(मूल्य 10 रुपए - एन सी ई आर टी, श्री अरबिन्दो मार्ग, नई दिल्ली 110016)

बच्चों के लिए गांधीजी पर लिखी आज तक की सबसे विलक्षण पुस्तक। जवाहरलाल नेहरू की प्रस्तावना और आर के लक्ष्मण के अनूठे चित्र। टके के भाव एक अनमोल कृति। अंग्रेजी में भी यह पुस्तक उपलब्ध है।

## **18 एक तिनके से आई क्रांति - मासानोबू फुकोओका**

(मूल्य 45 रुपए - फ्रेन्ड्स रूरल सेंटर, रसूलिया, जिला होशंगाबाद)

रासायनिक उर्वरक, कीटनाशकों से परे प्राकृतिक खेती पर दुनिया की महानतम पुस्तक। इस सशक्त पुस्तक ने बहुत से लोगों की जिंदगी को बदला है।

## **19 सुजाता और जंगली हाथी - शंकर**

(मूल्य ? - चिल्ड्रंस बुक ट्रस्ट, बहादुरशाह जफर मार्ग, नई दिल्ली 110002)

जब एक खूंखार जंगली हाथी भी प्रेम का उत्तर प्रेम से देता है, तो फिर इंसान की तो बात ही क्या? पुस्तक में प्रेम का संदेश है।

## **20 ननिहाल में गुजरे दिन - शंकर**

(मूल्य ? - चिल्ड्रंस बुक ट्रस्ट, बहादुरशाह जफर मार्ग, नई दिल्ली 110002)

केरल के एक बच्चे के जीवन की रोमांचपूर्ण घटनाओं की बेहद रोजक कहानी। सुंदर चित्र।

## **21 महागिरी - हेमलता**

(मूल्य 12 रुपए - चिल्ड्रंस बुक ट्रस्ट, बहादुरशाह जफर मार्ग, नई दिल्ली 110002)

महावत की बर्बता के बावजूद भीमकाय हाथी अपनी भलमनसाहत नहीं छोड़ता है। दिल को छू लेने वाली अत्यंत मार्मिक कहानी। पुलक बिस्वास के अनूठे चित्र। अपने देश की सबसे अनमोल सचित्र बाल पुस्तक।

## **22 प्रिय पिचि - सिमरन कौर**

(मूल्य 18 रुपए - चिल्ड्रंस बुक ट्रस्ट, बहादुरशाह जफर मार्ग, नई दिल्ली 110002)

लेखिका एक अनाथ छोटी गिलहरी को पालती है। इस नहें प्राणी की प्यारी और संवेदनशील जीवनी।

## **23 एक दोस्त सांप - गिरिजा रानी अस्थाना**

(मूल्य 12 रुपए - चिल्ड्रंस बुक ट्रस्ट, बहादुरशाह जफर मार्ग, नई दिल्ली 110002)

जब सांप पहले-पहल पेड़ की जड़ में अपना बिल बनाता है तो शुरू में तो पेड़ पर रहने वाले सभी पक्षी डर जाते हैं। पर जब ठेकेदार पेड़ काटने आता है तो सांप ही पेड़ को बचाता है।

## **24 नन्हा राजकुमार - सैंतेकजूपैरी**

(मूल्य 20 रुपए - पुनर्नवा प्रकाशन, रेवती कुंज हापुड़ 245101)

विश्व प्रसिद्ध फ्रेंच पुस्तक 'द लिटिल प्रिंस' का मूल फ्रेंच से हिंदी अनुवाद। यह पुस्तक पढ़ने के बाद सदा के लिए रुह से चिपक जाएगी। एक अमर कथा। इस पुस्तक को उपरोक्त वेबसाइट से भी डॉउनलोड किया जा सकता है <http://arvindguptatoys.com>

## **25 खुलते अक्षर, खिलते अंक - विष्णु चिंचालकर**

(मूल्य 15 रुपए - नेशनल बुक ट्रस्ट, ए - 5, ग्रीन पार्क, नई दिल्ली 110016)

हिंदी वर्णमाला के अक्षरों में न जाने कितने जानवर, लोग सोए पड़े हैं। इसे देखकर बच्चों में सृजनात्मकता का बांध फूट पड़ेगा।

## **26 ईदगाह - प्रेमचंद**

(मूल्य 6 रुपए - नेशनल बुक ट्रस्ट, ए - 5, ग्रीन पार्क, नई दिल्ली 110016)

गरीब हमीद मेले में खिलौनों की जगह अपनी बूढ़ी दादी के लिए एक चिमटा खरीदता है। बाकी बच्चों के खिलौने चिमटे के सामने फीके पड़े जाते हैं। दुनिया की सर्वश्रेष्ठ रचनाओं में बेजोड़।

## **27 चौदह चूहे घर बनाने चले - काङ्गुओ इवामुरा**

(मूल्य 11 रुपए - नेशनल बुक ट्रस्ट, ए - 5, ग्रीन पार्क, नई दिल्ली 110016)

टोयोटो फाउंडेशन के सहयोग से छपी उत्कृष्ट जापानी बाल पुस्तक। चित्र एकदम लाजवाब।

## **28 चाय की प्याली में पहली - पार्थ घोष, दिपांकर होम**

(मूल्य 30 रुपए - नेशनल बुक ट्रस्ट, ए - 5, ग्रीन पार्क, नई दिल्ली 110016)

आम जीवन से ली गई 100 साधारण घटनाओं का वैज्ञानिक विश्लेषण। अपनी कोटि की महान पुस्तक।

## **29 पानी - प्रोफेसर राम**

(मूल्य 8 रुपए - नेशनल बुक ट्रस्ट, ए - 5, ग्रीन पार्क, नई दिल्ली 110016)

एक जटिल वैज्ञानिक विषय को सुलभ भाषा में पेश करने का बहुत ही सराहनीय प्रयास।

## **30 कजरी गाय, झूले पर - जुज्जा वाइजलैंडर**

(मूल्य 25 रुपए - नेशनल बुक ट्रस्ट, ए - 5, ग्रीन पार्क, नई दिल्ली 110016)

हिंदी में छपने वाली पहली सचित्र स्वीडिश बाल पुस्तक। पुस्तक के चित्र स्वीडिन के सबसे मशहूर चित्रकार स्वेन नोरडोविस्ट ने बनाये हैं।

## **31 कविता संग्रह - एकलव्य समूह**

(मूल्य 10 रुपए - एकलव्य, ई - 453 एच आई जी, अरेरा कालोनी, भोपाल 462016)

बच्चों के साथ गुनगुनाने के लिए 39 अनमोल गीत। कैरन हेडॉक द्वारा बनाये अनूठे चित्र।

### **32 भारत में बच्चे एवं राजनीति - मायरन वीनर**

(मूल्य 40 रुपए - इंडियन सोशल इंस्टीट्यूट, लोदी रोड, नई दिल्ली 110003)

भारत में बाल-मजदूरी और शिक्षा नीति का एक व्यापक और तुलनात्मक विश्लेषण।

### **33 अध्यापक - सिल्विया ऐंश्टन वारनर**

(मूल्य 200 रुपए - ग्रंथशिल्पी, दिल्ली)

बच्चों की शिक्षा और विशेषताएँ पर भाषा के शिक्षण पर विश्व प्रसिद्ध क्लासिक का मनमोहक हिन्दी रूपांतरण।

### **34 अध्यापक के नाम पत्र - बारबियाना के बच्चे**

(मूल्य 200 रुपए - ग्रंथशिल्पी, दिल्ली)

आठ गरीब बच्चों द्वारा शिक्षा पर लिखी एक बेबाक पुस्तक। गरीब बच्चे क्यों नहीं पढ़ पाते? सामान्य स्कूल उन्हें क्यों दुत्कारते हैं? गरीब, आखिर गरीब क्यों हैं? विश्व की मशहूर कृति।

### **35 बच्चों का जीवन - जार्ज डेनिसन**

(मूल्य 200 रुपए - ग्रंथशिल्पी, दिल्ली)

शिक्षा पर एक अंतर्राष्ट्रीय क्लासिक का सुंदर और सुलभ हिन्दी रूपांतरण।

### **36 संकट सांप का - रस्किन बांड**

(मूल्य 10 रुपए - नेशनल बुक ट्रस्ट, ए - 5, ग्रीन पार्क, नई दिल्ली 110016)

रस्किन बांड के बचपन की एक रोचक घटना। मिकी पटेल के सुंदर चित्र। बच्चों के लिए एक मजेदार कहानी।

### **37 धम्मक धम - कमला भसीन**

(मूल्य 10 रुपए - काली फॉर बूमेन, नई दिल्ली)

बालगीतों का एक अनूठा संग्रह, जिनमें महिला पात्रों की एक सबल छवि दर्शाई गई है। मिकी पटेल के सुंदर चित्र।

### **38 रस्टी के कारनामे - रस्किन बांड**

(मूल्य 18 रुपए - नेशनल बुक ट्रस्ट, ए - 5, ग्रीन पार्क, नई दिल्ली 110016)

रस्टी के अपने मित्र दलजीत के साथ बोर्डिंग स्कूल से भागने की दास्तां। इस पुस्तक पर एक लोकप्रिय सीरियल बना है।

### **39 बस की सैर - वल्लीकानन**

(मूल्य 8 रुपए - नेशनल बुक ट्रस्ट, ए - 5, ग्रीन पार्क, नई दिल्ली 110016)

एक गांव की लड़की की बस द्वारा पहली शहर की यात्रा का अत्यंत रोमांचक वर्णन।

## **40 बताओ मैं क्या कर रहा हूं? - एशिया पैसिफिक कोपब्लिकेशन**

(मूल्य 31 रुपए - नेशनल बुक ट्रस्ट, ए - 5, ग्रीन पार्क, नई दिल्ली 110016)

छोटे बच्चों के लिए एक लाजवाब पुस्तक। इसके चित्रों को देखकर ऐसा लगता है जैसे कि अफ्रीका से लेकर यूरोप के कई देशों की सैर कर ली हो। पुस्तक छोटी-छोटी गतिविधियों से भरी है।

## **41 भोलू और गोलू - पंकज बिष्ट**

(मूल्य 12 रुपए - नेशनल बुक ट्रस्ट, ए - 5, ग्रीन पार्क, नई दिल्ली 110016)

सर्कस का भालू भोलू और उसका मित्र गोलू एक दिन सर्कस से भाग निकलते हैं। उनके मजेदार अनुभवों का ब्यौरा।

## **42 एक डर, पांच निःडर - सत्यप्रकाश अग्रवाल**

(मूल्य 30 रुपए - आत्माराम एंड संस, कश्मीरी गेट, दिल्ली 110006)

30 वर्ष पहले 'पराग' पत्रिका में छपा एक किशोर उपन्यास। अपने तरह की एक अनूठी पहल।

## **43 ला मेरा चने का दाना - कुदसिया जैदी**

(मूल्य 15 रुपए - आत्माराम एंड संस, कश्मीरी गेट, दिल्ली 110006)

एक पुरानी लोक-कथा पर आधारित नाटक। इसमें एक चतुर बंदर अपनी सूझ-बूझ से बहुत लोगों को ठगता है और अंत में जंगल के राजा शेर को भी अच्छा सबक सिखाता है।

## **44 मानव की कहानी - राहुल साकृत्यायन**

(मूल्य 10 रुपए - आत्माराम एंड संस, कश्मीरी गेट, दिल्ली 110006)

देश के प्रबुद्ध बुद्धिजीवी द्वारा बच्चों के लिए लिखी मानव विकास की कहानी।

## **45 एलिस अजूबों की दुनिया में - लुईस कैरोल**

(मूल्य 14 रुपए - प्रकाशन विभाग, पटियाला हाऊस नई दिल्ली)

विश्व प्रसिद्ध बाल पुस्तक का शमशेर बहादुर सिंह द्वारा सुंदर रूपांतरण।

## **46 जिसने उम्मीद के बीज बोए - ज्यां गियोनो**

(मूल्य 12 रुपए - भारत ज्ञान विज्ञान समिति, जी ब्लाक, साकेत नई दिल्ली 110017)

मूल फ्रेंच कहानी का हिंदी रूपांतरण। एक अनपढ़ गडेरिया एक बीरान पहाड़ी पर अपनी मेहनत से बीज लगाकर उसे हरा-भरा कर देता है। एक बेहद प्रेरणास्पद पर्यावरण-मित्र कहानी।

## **47 बच्चे कैसे पैदा होते हैं? - लाईफ टाइम बुक्स**

(मूल्य 12 रुपए - भारत ज्ञान विज्ञान समिति, जी ब्लाक, साकेत नई दिल्ली 110017)

अपने जन्म के संबंध में जानने

## **48 बिल्लियों की बारात - वैंडा गैग**

(मूल्य 10 रुपए - भारत ज्ञान विज्ञान समिति, जी ब्लाक, साकेत नई दिल्ली 110017)

1928 में पहली बार छपी विश्व प्रसिद्ध न्यूबेरी पुरस्कार से सम्मानित सचित्र बाल पुस्तक का हिन्दी अनुवाद। यह पुस्तक न जाने दुनिया की कितनी ही भाषाओं में छप चुकी है और इसने लाखों-करोड़ों बच्चों को मंत्रमुग्ध किया है। पुस्तक के काले-सफेद बुडकट्स एकदम अनूठे हैं।

## **49 प्रमुख के नाम एक पत्र - चीफ सिएटिल**

(मूल्य 10 रुपए - भारत ज्ञान विज्ञान समिति, जी ब्लाक, साकेत नई दिल्ली 110017)

1860 में अमरीकी रेड-इंडियन सरगना चीफ सिएटिल द्वारा पर्यावरण के मुद्दे पर दिया गया आजतक का सबसे ओजस्वी भाषण।

## **50 एक अच्छा स्कूल - जॉन होल्ट**

प्रसिद्ध शिक्षाविद् और विश्व की महान कृति 'हाऊ चिल्ड्रन फेल' के लेखक जॉन होल्ट के सपनों के स्कूल 'न्यू लिटिल स्कूल' का सजीव वर्णन।